

स्पूकी और सेफ हैलोवीन के लिए बिना ट्रिक वाली टिप्स

- 🍎 यदि आपके शरीर में हल्के से भी लक्षण हों, या आप एकांतवास/संगरोध में हों, तो ट्रिक-या-ट्रीट न खेलें, दूसरों को ट्रीट न दें या किसी पार्टी में न जाएँ।
- 🧑‍🎄 ऐसी पोशाकें चुनें, जिनके साथ आपके बच्चे गैर-चिकित्सीय मास्क भी पहन सकें।
- 🔔 यदि संभव हो, तो दरवाजों पर घंटी बजाने के बजाय दस्तक दें, अथवा दरवाजे या पोर्च से २ मीटर दूर रहते हुए "ट्रिक या ट्रीट" की आवाज दें। यह सुनिश्चित करें कि आवाज लगाने वाले व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ हो।
- 🌟 ट्रिक-या-ट्रीट खेलने वालों से स्वस्थ दूरी बनाए रखें। यदि संभव हो, तो अपने घर के सामने के दरवाजे के बजाय ड्राइववे, खुले गैराज या लॉन से कैंडी बांटें।

आप अपनी खिड़की या अपने दरवाजे पर दिखाने के लिए विशेष हैलोवीन पोस्टर प्रिंट कर सकते/सकती हैं। इससे ट्रिक-या-ट्रीट खेलने वालों को यह पता चल जाएगा कि क्या आप इस साल उन्हें डराने के लिए और कैंडी देने के लिए खुले/खुली हैं या नहीं। वेबसाइट alberta.ca/halloween से पोस्टर प्राप्त करें व और अधिक सुझाव देखें।